



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 354]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 1976/कार्तिक 10, 1898

No. 354]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 1976/KARTIKA 10, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

## CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 1976

G.S.R. 859(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of West Bengal hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) The rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) 22nd Amendment Rules, 1976.

(2) They shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1973.

2. In Schedule III appended to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "A—posts carrying pay above the time scale pay in the Indian Administrative Service under the State Governments" against West Bengal for the entries

"Secretaries to Government—Rs. 2,250, Special Secretary, Finance Department—Rs. 2,250" the following entries shall be substituted, namely:—

"Secretaries to Government—Rs. 2500—125/2—2750 Special Secretary, Finance Department - Rs. 2500-125/2-2750"

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 1973, were issued to implement the recommendations made by the Third Central Pay Commission in respect of the pay scales of Class II, Class III and Class IV employees. They were given effect to from the 1st January, 1973. Government have since broadly accepted, with some modification, the recommendations of the Third Central Pay Commission regarding the pay scales in Class I Services/posts and the All India Services and have decided that, except in respect of revision of pay or scales of pay of posts which have been upgraded to Rs. 3,000 (fixed) or above, the date of effect of revision of pay scales in Class I Services/posts and the All India Services shall be the same as for employees in Class II to Class IV, namely, the 1st January, 1973. The Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 are, therefore, being amended accordingly.

(No officer is likely to be adversely affected by this Notification being given retrospective effect)

[No. 14021/5/75-AIS(II)]

V. R. SRINIVASAN,  
Desk Officer.

मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1976

सां० का० नि० 859(अ).—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 81) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में श्रीर आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) बाईसवां संशोधन विनियम, 1976 है।

(2) ये विनियम एक जनवरी, 1973 से प्रवृत्त माने जायेंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के साथ संलग्न अनुसूची—III-क में—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के समय वेतन मान से अधिक वेतन पाने वाले पद "शीर्ष के अधीन" "पश्चिम बंगाल" प्रविष्टि के अग्रे, पहले कालम के बापने दूसरे तथा तीसरे कालमों में दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर:—

(i) सरकार के सचिव—र० 2250/-

(ii) विशेष सचिव (वित्त)—र० 2250/8

निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रति स्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

(i) सरकार के सचिव—र० 2500—125/2—2750/-

(ii) विशेष सचिव (वित्त)—र० 2500—125/2—2750/8

## स्पष्टीकारक रूप

केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 1973 वर्ग-2, वर्ग-3 और वर्ग-4 कर्मचारियों के वेतनमानों के बारे में तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को धार्यान्वित करने के लिए जारी किए गए थे। उनको 1 जनवरी, 1973 से प्रवृत्त कराया गया था। तब से सरकार ने वर्ग-1 सेवा/पद और अखिल भारतीय सेवा के वेतनमानों की बाबत तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों, कुछ उपान्तरणों के साथ, मुख्यतः स्वीकार कर ली हैं, और यह निश्चित किया है कि वेतन के पुनरीक्षण के बारे में या उन सभी पदों के वेतनमानों के जो 3000 रु० (नियत) या ऊपर तक उच्च कोटि के कर दिये हैं सिवाय वर्ग-1 सेवा/पद और अखिल भारतीय सेवा के वेतनमानों के पुनरीक्षण के प्रवृत्त होने की तारीख बड़ी होगी जो वर्ग-2 से 4 के कर्मचारियों के लिये हैं, अर्थात् 1 जनवरी, 1973 अतः भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 तदनुसार संशोधित किए जा रहे हैं। (संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के कारण किसी अधिकारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना सम्भाव्य नहीं है।)

[संख्या 14021/5/75—अ० भा० से० (II)]

बी० आर० श्रीनिवासन, डैस्क अधिकारी।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा निर्यन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

